



1-The Indian Air Force (IAF) will conduct an air show over the Dal Lake in Srinagar on September 26 as part of the ongoing 'Azadi Ka Amrit Mahotsav', marking the 75th year of India's Independence.

भारतीय वायु सेना भारत की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर चल रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 26 सितंबर को श्रीनगर में डल झील के ऊपर एक एयर शो आयोजित करेगी।

2-Renowned actor Anupam Kher has been conferred with an honorary doctorate in Hindu studies by the Hindu University of America.

हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है।

3-Eminent English author Ruskin Bond, Hindi writer Vinod Kumar Shukla and six others were selected for the Sahitya Akademi Fellowship.

अंग्रेजी भाषा के विख्यात लेखक रस्किन बांड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और छह अन्य लेखकों का चयन साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किया गया।

4-The Sikkim government has declared 'Cooper Mahseer' locally named 'Katley' as the state fish, an official of the Fisheries department said.

मत्स्यपालन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सिक्किम सरकार ने 'कूपर मशीर' नाम की मछली को 'राज्य मत्स्य' घोषित किया है, इस मछली को स्थानीय स्तर पर 'केटली' कहा जाता है।

5-The Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences (RMLIMS) in Lucknow will start cochlear implantation at its otolaryngology (ENT) department for hearing impaired children aged between one to five years.

लखनऊ में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एक से पांच साल की उम्र के बच्चों के लिए अपने ऑटोलरींगोलॉजी (ईएनटी) विभाग में कॉक्लियर इम्प्लांटेशन शुरू करेगा।

6-Arunachal Pradesh Advocate General Nilay Dutta died in Karnataka's Coorg. He was 68.

अरुणाचल प्रदेश के महाधिवक्ता निलय दत्ता का कर्नाटक के कुर्ग में निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे।

7-Eminent Odia litterateur and journalist Manorama Mohapatra died. She was 87.

ओडिशा की जानीमानी साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं।

8-In pursuance of the policy of the Modi Government of encouraging faster economic development and connectivity and under the guidance of the Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Amit Shah, a new Passenger Terminal Building (I) at ICP Petrapole was inaugurated.

तेज आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने की मोदी सरकार की नीति के अनुरूप और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, आईसीपी पेट्रापोल में एक नए यात्री टर्मिनल भवन (आई) का उद्घाटन किया गया।

9-The Najafgarh – Dhansa Bus Stand section on the Grey Line of Delhi Metro was inaugurated by the Union Minister of Housing and Urban Affairs & Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and the Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal, via video conferencing.

दिल्ली मेट्रो की ग्रे-लाइन पर नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड खंड का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया।

10-Ravindra Narayan Ravi was sworn in as the new Governor of Tamil Nadu succeeding Banwarilal Purohit who has been shifted to Punjab.

रवींद्र नारायण रवि ने बनवारीलाल पुरोहित के बाद तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली, जिन्हें पंजाब में स्थानांतरित कर दिया गया है।

